

ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION FOR THE MONTH OF JULY 2024

1. RENEWAL OF MEMBERSHIP WITH THE ASSOCIATION

The Association has sent an E-mail dated 1st April 2024 to those Members whose Subscriptions are due from 1st April 2024 . So far, the Association received Membership Renewals from Members in various Categories during the Period from 1st April to 31st July 2024 as under-

Region	Renewal Due as on 01-04-2024	Primary	Associate	Agent / Distributor	Retailer	Total Renewed As on 31-07-2024
Mumbai	444	210	24	7	-	241
Western	171	28	7	1	-	36
Southern	77	15	3	3	2	23
Northern	192	49	4	8	1	62
Eastern	45	18	2	1	1	22
Total	929	320	40	20	4	384

There are 546 Members whose Subscription for the current Financial Year is still pending. We request those Members to send their Renewals at the earliest to avoid uninterrupted Services. Members can Pay their Renewals through the following Link or NEFT or by a Crossed Cheque. https://cmai.in/membership_form/public/members/login

The Bank Details of the Association for NEFT/RTGS are as under:-

Name of Beneficiary: **CMAI Membership A/c.**

Bank Name: **HDFC Bank**

Account Number: **00051450000092**

IFSC CODE: **HDFC0000005**

WESTERN REGIONAL OFFICE

The Western Regional Office of the Association has generated 9 New Members and forwarded 14 Renewals during the Month of April, May , June & July 2024

NORTHERN REGIONAL OFFICE

The Northern Regional Office of the Association has generated 35 New Members and forwarded 14 Renewals during the month of April, May , June & July 2024

SOUTHERN REGIONAL OFFICE

The Southern Regional Office of the Association has generated 2 New Members and able to get 12 Renewals from Members during the Month of April, May , June & July 2024

...2/-

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

2. CONCILIATION & ARBITRATION SUMMARY REPORT FOR THE MONTH OF JULY 2024

MIS FOR THE PERIOD OF	JUNE'2024		JULY' 2024	
	No. of Files	Amount	No. of Files	Amount
Opening Total Cases pending resolution	1740	₹ 39,14,44,765	1759	₹ 39,40,47,172
New Complaints	36	₹ 46,77,487	35	₹ 1,01,58,821
Complaints resolved fully in the Month	17		22	
Amount Collected in the Month		₹ 20,75,080		54,14,202
Total Cases pending resolution as on month end	1759	₹ 39,40,47,172	1772	₹ 39,87,91,791
Active Cases in Caution List	1218	₹ 26,25,84,332	1299	₹ 26,89,16,958
Active Cases pending resolution as on month end	541	₹ 13,14,62,840	473	₹ 12,98,74,833
Current Payment	31	₹ 20,75,080	43	17,12,109
Post Dated Cheque Received	0	₹ 0	15	37,02,093
Amount Collected in the Month	31	₹ 20,75,080	58	54,14,202

3. MEETINGS / EVENTS / REPRESENTATIONS

The Office Bearers of the Association had met on 17th July 2024 and discussed and decided matters pertaining to the Activities of the Association including Organising of 2ND Meeting of the Achievers Club, Brands of India Show to be held in Dubai in November 2024 .

79TH NATIONAL GARMENT FAIR

The Association has Successfully Organised the 79th National Garment Fair to be held from 23rd to 26th July 2024 at Bombay Exhibition Centre, NESCO Complex, Goregaon East, Mumbai 400 063 for Men's, Women's & Accessories Section and at Jio World Convention Centre, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 for Kids Section.

1075 Exhibitors (1165 Stalls) Showcased over 1321 Brands, Presented their Latest Festive Collections 2024 to Approx. 40,000 Retailers who Visited this 4 Day Fair.

The 79th National Garment Fair was Inaugurated on Tuesday, 23rd July 2024 at 10.30 A. M in Hall I, Bombay Exhibition Centre, Nesco Complex, Goregaon(East) by Shri S Rajamouli of M/s R S Brothers, Hyderabad and at JIO World Convention Centre at 2.30 P.M in presence of the Office Bearers, Members of the Fair Sub Committee, Managing Committee, Exhibitors, Trade Visitors and Media.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

: 3 :

The Association also Organised a Net Working Session between the Exhibitors & Agents & Distributors on 24th July 2024 at The Grande, Bombay Exhibition Centre, Nesco Complex between 2 .00 P. M & 5.00 P.M. 50 Exhibitors and 30 Agents & Distributors attended the said Session. The Association also Organised a Dinner Meet today (24th July) at 8 .00 PM at The Grande Hall , NESCO Complex , Goregaon (East) with Agents & Distributors .

4 SATURDAY, 27 JULY 2024

ECON

79th National Garment Fair by CMAI in Mumbai Inaugurated by Seerna Rajamouli, of R S Brothers, South India's leading Retail Group

▶▶ *India's largest Apparel Trade Show with 1300 brands to attract more than 30,000 retailers from across the country in Mumbai*

▶▶ *The domestic apparel market is projected to reach USD 105.50 billion in 2024 with an anticipated annual growth rate of 3.81% from 2024 to 2028*

Mumbai, Namrata Poddar:

The 79th National Garment Fair (NGF) 2024 organised by the Clothing Manufacturers Association of India (CMAI), was inaugurated by Seerna Rajamouli of R S Brothers, South India's leading Retail Group on 23rd July in the august presence of industry leaders, apparel manufacturers, retailers, distributors and other industry members at the Bombay Exhibition Centre, Goregaon and Jio World Convention Centre, BKC. 79th NGF is showcasing more than 1300 apparel brands within an expansive 1 million square feet of exhibition space spread across two venues – Men's Wear, Women's Wear and Accessories at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, and Kids Wear at the Jio Convention Centre, BKC over the next four days from 23rd to



26th July, 2024 featuring a diverse range for collections for the largest assembly of retailers and distributors from across India. CMAI dignitaries present at the inauguration included, Rajesh Masand - President, RohitMunjal -Vice President & Chairman-NGF, Santosh Katariya - Hon. General Secretary, AnkurGadia - Hon. Treasurer, AnandChoksi, Jt. Chairman-NGF and Rahul Mehta, Chief Mentor among other office bearers and managing committee members. Speaking about the domestic apparel

market, Rajesh Masand, President, Clothing Manufacturers Association of India (CMAI), said, "The apparel industry is optimistic about the upcoming festive season. Along with showcasing the vibrant and diverse offerings of apparel brands, the National Garment Fair highlights the industry's resilience after a tepid demand since last two years. This NGF provides an unparalleled platform for brands and manufacturers to showcase their latest collections and innovations. As the country

gears up for a season of celebration, NGF serves as a crucial hub for retailers and buyers to source the finest apparel, ensuring that end consumers have access to a wide range of stylish options." Speaking at the inauguration, SeernaRajamouli, R S Brothers said, "The fashion industry is at a fascinating intersection of form and function. The consumers need clothing, true, but there is also a deeply psychological aspect to the clothes they wear and the ways the apparel industry influences consumers to purchase their brand over. We are amazed with the positive energy at the fair and impressed to see vast variety of collections that is on display at both the fair venues. Indeed, its the perfect sourcing platform for our buying teams who are present here."

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West), Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

प्रचंड खपाचे एकमेव निःपक्ष व निर्भीड दैनिक

स्थापना
१९३९

पुढारी

www.pudhari.com

संक्षिप्त



'सीएमएआय'तर्फे राष्ट्रीय वस्त्र मेळावा

मुंबई: गोरेगाव येथील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर आणि बीकेसीतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे 'क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'तर्फे (सीएमएआय) ७९ वा राष्ट्रीय वस्त्र मेळावा (एनजीएफ) आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्याचे उद्घाटन मंगळवारी दक्षिण भारतातील अग्रगण्य रिटेल समूह 'आर. एस. ब्रदर्स'च्या सेर्ना राजामौली यांच्या हस्ते करण्यात आले. ७९ व्या राष्ट्रीय वस्त्र मेळाव्यात १३००हून अधिक कपड्यांचे ब्रँड्स उपलब्ध असणार आहेत. गोरेगाव येथील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटरमध्ये पुरुष आणि महिलांचे पोशाख तसेच इतर वस्तू आणि बीकेसीतील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे लहान मुलांच्या कपड्यांचे प्रदर्शन भरवण्यात आले आहे. शुक्रवार, २६ जुलैपर्यंत हे प्रदर्शन सुरू राहणार आहे. उद्घाटनाला 'सीएमएआय'चे अध्यक्ष राजेश मसंद, 'सीएमएआय'चे उपाध्यक्ष आणि 'एनजीएफ'चे अध्यक्ष रोहित मुंजाल, सरचिटणीस संतोष कटारिया, खजिनदार अंकुर गादिया, 'एनजीएफ'चे संयुक्त अध्यक्ष आनंद चौक्सी, मुख्य मार्गदर्शक राहुल मेहता आणि इतर पदाधिकारी आणि व्यवस्थापकीय समिती सदस्य उपस्थित होते. देशांतर्गत वस्त्र बाजाराविषयी बोलताना क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (सीएमएआय) अध्यक्ष राजेश मसंद म्हणाले, की 'आगामी सणासुदीच्या हंगामाबद्दल पोशाख उद्योग खूप आशावादी आहे.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     



Mr. Rohit Munjal, Vice President & Chairman, Fair Sub Committee, Mr. Anand Chokshi, Jt. Chairman, Fair Sub Committee, Mr. Mukesh Jain, Member, Fair Sub-Committee & Mr. Dinesh Nandu, Jt Chairman, State Govt Relation Sub Committee met Shri. Chandrakant Dada Patil, Hon'ble Minister for Textiles, Govt. of Maharashtra on Thursday, 18th July 2024 in Mumbai and Invited him to Inaugurate the 79th National Garment Fair. Though the Hon'ble Minister has consented for the same but could not make it due to the Announcement of Union Budget

2ND BRANDS OF INDIA SHOW

After the Resounding Success of the Inaugural Edition of the Brands of India Show held in November 2023, the Association has decided to Organise the 2nd Edition of "Brands of India" Show, at DWTC, Dubai (UAE) from 17th to 19th September 2024. However, based on our Members request to postpone the Dates of 2nd Edition of Brands of India Show to after the Diwali Season, the Association has now Revised the Dates of the said Show from 17-19 September to **12th to 14th November 2024** at the same Venue viz; Dubai World Trade Centre, (DWTC) Dubai, UAE.

So far the Association has received Response from 76 Exhibitors(923 Sq Mtrs) . Marketing of the Show is in full swing.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

: 6 :

INTERACTIVE MEETING WITH TEXTILE INDUSTRY STAKEHOLDERS AND TAG MEETING

An Interactive Meeting of the Textile Industry Stakeholders was Organised by the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles with the Support of METAXIL & TEXPROCIL on 11th July 2024 and 12th July 2024 under the Chairpersonship of Shri Giriraj Singh, Hon'ble Minister of Textiles, Govt of India at the Roof Top, Hotel Trident, Nariman Point, Mumbai .

The Meeting provided an opportunity to all the Stakeholders to Interact with the Hon'ble Minister and presented their Views & Suggestions on "Increasing Exports of Textiles and Clothing and Employment Generation".

Mr Rajesh Masand, President and Mr Rahul Mehta, Chief Mentor attended the said Meetings on behalf of the Association.

BIHAR GOVT INDUSTRIAL POLICY MEETING

The Apparel Export Promotion Council (AEPC) Organised a Meeting to discuss Bihar Govt Textile Policy at Patna on 18th July 2024 under the Chairpersonship of the Hon'ble Minister of Textiles, . AEPC Invited the President & Chief Mentor , CMAI to attend the same.

Mr Rahul Mehta , Chief Mentor and Mr Anand Golecha , Member, Managing Committee attended the said Meeting on behalf of the Association.



Mr Rahul Mehta , Chief Mentor with the HMOT at Patna during the Bhar Govt Industrial Policy Meeting organised by AEPC on 18th July 2024

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

CMAIS VIEW ON UNION BUDGET

This budget is extremely pragmatic and innovative in some of the bold decisions and directions it has taken to encourage employment directly. The steps include an internship scheme, the decision to reimburse one month's wages for new employees, and subsidies for employees earning over a lakh of rupees. These are excellent steps being taken. However, there are many open-ended areas at this point, and we await the details before making specific suggestions. Nonetheless, this is a visionary, pragmatic, and very innovative budget that the Finance Minister has presented. Whilst most of these measures are for all industries, they will likely benefit the textile and apparel industry equally, if not more, since it is more labour-oriented. Therefore, we are confident it will benefit the apparel industry.

Furthermore, additional measures announced to support bank credits to MSME's and easing of foreign investment will also benefit textile and apparel industry. The import relaxation in some of the important raw materials, trims and accessories required for garment manufactures will also help the garment manufacturers to be more competitive, especially in the Export markets.*



Rahul Mehta, Chief Mentor
Clothing Manufacturers
Association of India

This budget is extremely pragmatic and innovative in some of the bold decisions and directions it has taken to encourage employment directly. The steps include an internship scheme, the decision to reimburse one month's wages for new employees, and subsidies for employees earning over a lakh of rupees. These are excellent steps being taken. However, there are many open-ended areas at this point, and we await the details before making specific suggestions. Nonetheless, this is a visionary, pragmatic, and very innovative budget that the Finance Minister has presented. Whilst most of these measures are for all industries, they will likely

benefit the textile and apparel industry equally, if not more, since it is more labour-oriented. Therefore, we are confident it will benefit the apparel industry.

Furthermore, additional measures announced to support bank credits to MSME's and easing of foreign investment will also benefit textile and apparel industry. The import relaxation in some of the important raw materials, trims and accessories required for garment manufactures will also help the garment manufacturers to be more competitive, especially in the Export markets.

AN EXCLUSIVE SESSION ON “ BRANDS OF INDIA “

An exclusive Session featuring Mr. Rahul Mehta, a veteran in the Textile and Apparel Industry, and Mr Nimish Dave, as they delve into the theme "Brands of India."

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

: 8 :

In this insightful discussion, Mr. Mehta shares his extensive experience and visionary insights on building and promoting Indian apparel brands both nationally and internationally. With over four decades of industry expertise, Mr. Mehta, the former President of the Clothing Manufacturers Association of India (CMAI), has been instrumental in elevating the status of Indian fashion on the global stage.

Watch the full discussion now and get inspired!

<https://youtu.be/OIFMNJKcbI0>

MEDIA COVERAGE

हजारों खरीदार रहे मौजूद गारमेंट फेयर में 2100 करोड़ का कारोबार

■ मुंबई (सं). क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) द्वारा आयोजित 79वें नेशनल (NGF) 2024 का अंश के साथ समापन हुआ. इ भर से 39000 से अधिक उपस्थिति रही, मुख्य विक्रेताओं, वितरकों और की संख्या सबसे ज्यादा लगभग 2100 करोड़ रुप



गारमेंट फेअरमध्ये २१०० कोटीची उलाढाल

■ मुंबई : क्लोथिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) द्वारे आयोजित करण्यात आलेले ७९वे नॅशनल गारमेंट फेअर (एनजीएफ) अभूतपूर्व यशाने संपन्न झाले. या प्रदर्शनात देशभरातून ३९००० पेक्षा जास्त खरेदीदार मुख्यत्वे किरकोळ विक्रेते, वितरक आणि घाऊक विक्रेते सहभागी झाले आणि त्यांनी अंदाजे २१०० कोटी रुपयांची उलाढाल केली. याव्यतिरिक्त, या प्रदर्शनादरम्यान झालेल्या व्यापार चौकशांमधून ८०० कोटी ते १००० कोटी रुपयांचे व्यवहार होतील, असा अंदाज आहे. या प्रदर्शनात १३०० हून अधिक पोशाखांचे ब्रँड्स सहभागी झाले होते.

रेक्ट अगले 4-8 सप्ताह ए से 1000 करोड़ रुपए न इन्क्वॉयरी आने की

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

79th National Garment Fair of CMAI opens in city today

Our Staff Reporter

MUMBAI, JULY 22—

The Indian apparel industry is gearing up for the spectacular show of trends, innovation and business opportunities at the most awaited 79th National Garment Fair (79th NGF) by CMAI scheduled to take place from 23-26 July 2024 at the Bombay Exhibition Centre and the Jio World Convention Centre in Mumbai. With a massive 1 million square feet of exhibition space, this NGF is set to highlight the latest collection in men's, women's & children's clothing.

This bi-annual trade show being organized by the Clothing Manufacturers Association of India (CMAI) attracts 1100 apparel manufacturers and more than 30000 pan India Retailers. NGF stands as a symbol of exclusiveness and holds significant prestige in the industry as India's foremost comprehensive sourcing fair that maximizes both time and cost efficiency for all stakeholders.

Rajesh Masand, President, CMAI, said "Despite the consumption slow down prevalent since 2023, we are optimistic about a rising demand in the domestic market during the upcoming festive season. Indian consumers distinct fashion choices, demand for unique prints, special designs and premium merchandise does provide a solid foundation for growth. We anticipate that the later half of the year will see a notable improvement across all categories, marking 2024 as a stabilizing period that sets the stage for our brighter future."

Speaking about NGF, Rohit Munjal, Vice President and Chairman of the Fair Committee, Clothing Manufacturers Association of India (CMAI) said, "National Garment Fair attracts national level manufacturers, distributors, retailers, industry professionals, promoting B2B sourcing relationships and offers access to new business opportunities that help drive growth.

The four-day extravagant trade show is anticipated to attract over 30,000 trade buyers from all over India. To facilitate this large

Continued on Page 3

NGF opens today in city

Continued from Page 1 Col 2 gather to showcase cutting-edge manufacturers, providing a quantum of trade visitors and apparel trends and foster single sourcing destination. This ensuring a productive experience business collaborations at the consolidation enhances for all stakeholders involved, we NGF, we are also embracing the efficiency and nurtures seamless have bifurcated the total future with a focus on networking and collaboration exhibition space of 1 million sustainability and novelty. NGF opportunities within the square feet across two largest venues of Mumbai - Men's Wear & Women's Wear at Bombay Exhibition Centre, Goregaon and Kid's wear at Jio World Convention Centre in BKC thus tradition meets modernity, and where the seeds of a sustainable future are sown." The NGF consolidates edition is expected to be a

Rahul Mehta, Chief Mentor of CMAI, said: "As we conglomeration of retailers and journey of the same.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West), Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

79वें नेशनल गारमेंट फेयर (NGF) में 2100 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान



राष्ट्रीय स्वाभिमान संवाददाता मुंबई। क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) द्वारा आयोजित 79वें नेशनल गारमेंट फेयर (NGF) 2024 का अभूतपूर्व सफलता के साथ समापन हुआ, जिसने भारत के सबसे बड़े परिधान व्यापार मेले के रूप में इसकी स्थिति को और भी पुख्ता किया है। 23 से 26 जुलाई, 2024 तक आयोजित इस इवेंट में देश भर से 39000 से अधिक खरीदारों की उपस्थिति रही, मुख्य रूप से खुदरा विक्रेताओं, वितरकों

और थोक विक्रेताओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। इस दौरान, चार दिनों में लगभग 2100 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इसके अतिरिक्त अगले 4-8 सप्ताह में 800 करोड़ रुपये से 1000 करोड़ रुपये तक की बिजनेस इन्क्वॉयरी आने की उम्मीद है। इस बिजनेस मेले में 1300 से अधिक अप्रैल ब्रांड्स शामिल हुए, जिन्होंने 1 मिलियन वर्ग फीट के विशाल प्रदर्शनी स्थल पर अपने नवीनतम कलेक्शन को प्रदर्शित किया।

नेशनल गारमेंट फेअरमध्ये मोठ्या उलाढालीचा अंदाज

मुंबई : क्लोथिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) द्वारे आयोजित करण्यात आलेले ७९ वे नॅशनल गारमेंट फेअरला (एनजीएफ) अभूतपूर्व यश मिळाले. यंदा २३ ते २६ जुलै दरम्यान, आयोजित केलेल्या या प्रदर्शनात देशभरातून ३९००० पेक्षा जास्त खरेदीदार मुख्यत्वे किरकोळ विक्रेते, वितरक आणि घाऊक विक्रेते सहभागी झाले आणि चार दिवसांत त्यांनी अंदाजे २१०० कोटी रुपयांची उलाढाल केली. याव्यतिरिक्त, पुढल्या चार ते आठ आठवड्यांमध्ये या प्रदर्शनात झालेल्या व्यापार चौकशांमधून ८०० कोटी ते १००० कोटी रुपयांचे व्यवहार होतील, असा अंदाज आहे, असे सीएमएआयचे अध्यक्ष राजेश मसंद म्हणाले.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

नॅशनल गारमेंट फेअरमध्ये २१०० कोटी रुपयांच्या उलाढाल

मुंबई : क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) द्वारे आयोजित करण्यात आलेले ७९ वे नॅशनल गारमेंट फेअर (एनजीएफ) अभूतपूर्व यशाने संपन्न झाले. २३ ते २६ जुलै २०२४ या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या या प्रदर्शनात देशभरातून ३९००० पेक्षा जास्त खरेदीदार मुख्यत्वे किरकोळ विक्रेते, वितरक आणि घाऊक विक्रेते सहभागी झाले आणि चार दिवसांत त्यांनी अंदाजे २१०० कोटी रुपयांची उलाढाल केली. याव्यतिरिक्त, पुढल्या चार ते आठ आठवड्यांमध्ये या प्रदर्शनादरम्यान झालेल्या व्यापार चौकशांमधून ८०० कोटी ते १००० कोटी रुपयांचे व्यवहार होतील असा अंदाज आहे. या प्रदर्शनात १३०० हून अधिक पोशाखांचे ब्रँड्स सहभागी झाले होते. त्यांनी आपली नवीनतम कलेक्शन्स तब्बल एक दशलक्ष चौरस फूट प्रदर्शनाच्या जागेत प्रदर्शित केली. गोरेगाव इथल्या बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटरमध्ये पुरुषांचे पोशाख, महिलांचे पोशाख आणि कसेसरीज तर जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर, बीकेसी इथे लहानग्यांचे कपडे प्रदर्शित करण्यात आले. अशाप्रकारे या दोन ठिकाणी हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. देशातल्या तयार कपड्यांच्या क्षेत्राच्या कामगिरीबद्दल बोलताना सीएमएआयचे अध्यक्ष राजेश मसंद म्हणाले की, 'या प्रदर्शनाने क्षेत्राची वाढ आणि परिवर्तनाची क्षमता अधोरेखित केली आहे.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

NGF में 2100 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान

मुंबई। क्लॉथिंग मैनुफैक्चरिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 79वें नेशनल गारमेंट फेयर (NGF) 2024 का अभूतपूर्व सफलता के साथ समापन हुआ, जिसने भारत के सबसे बड़े परिधान व्यापार मेले के रूप में इसकी स्थिति को और भी पुख्ता किया है। 23 से 26 जुलाई, 2024 तक आयोजित इस इवेंट में देश भर से 39000 से अधिक खरीदारों की उपस्थिति रही, मुख्य रूप से खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और थोक विक्रेताओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। इस दौरान, चार दिनों में लगभग 2100 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इसके अतिरिक्त अगले 4-8 सप्ताह में 800 करोड़ रुपये से 1000 करोड़ रुपये तक की बिजनेस

इन्क्वॉयरी आने की उम्मीद है। इस बिजनेस मेले में 1300 से अधिक अपैरेल ब्रांड्स शामिल हुए, जिन्होंने 1 मिलियन वर्ग फीट के विशाल प्रदर्शनी स्थल पर अपने नवीनतम कलेक्शन को प्रदर्शित किया। मेले का आयोजन दो स्थानों पर किया गया था: बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में, जहां पुरुषों और महिलाओं के वस्त्रों के साथ ही अन्य एक्सेसरीज प्रदर्शित किए गए थे, जबकि जियो कन्वेंशन सेंटर, बीकेसी में बच्चों के परिधानों को रखा गया था। डोमेस्टिक गारमेंट इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस के बारे में CMAI के अध्यक्ष राजेश मसंद ने कहा, 'इस मेले ने इस सेक्टर की ग्रोथ और परिवर्तनकारी क्षमताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया है।'

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmal.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

CMAI's 79th National Garment Fair 2024 in Mumbai hosts 39K buyers

The Clothing Manufacturers Association of India (CMAI) hosted the 79th National Garment Fair (NGF) 2024, which ended with remarkable success.

The event attracted over 39,000 buyers from all across the nation, primarily distributors, wholesalers, and retailers. In just four days, almost INR 2100 worth of business was reportedly created.

Furthermore, it is anticipated that over the course of the next four to eight weeks, commercial requests worth between INR 800 crores and INR 1000 crores will materialise. More than 1300 clothing designers showcased their newest collections in an immense 1 million square feet of exhibition area throughout the event. Men's, Women's, and Accessories at the Bombay Exhibition Centre, Goregaon, and Kids Wear at the Jio Convention Centre, BKC, were the two locations where the show was held.

Mr. Rajesh Masand,
President of CMAI remarked,
"The Fair has vividly illustrated the sector's growth and transformative potential. This landmark edition has not only highlighted our industry's resilience but also galvanised our collective ambition."

નેશનલ ગારમેન્ટ ફેરમાં રૂ. ૨૧૦૦
કરોડનો બિઝનેસ જનરેટ થયો
મુંબઈ, તા. ૨૯ : દેશમાં ગારમેન્ટ
ક્ષેત્રે પ્રવાહો પહોંચી જોવા મળ્યા છે. ધી
ક્લોધીંગ મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન
ઓફ ઈન્ડિયાના જણાવ્યા મુજબ ૭૯મા
નેશનલ ગારમેન્ટ ફેર ૨૦૨૪માં ચાર
દિવસમાં રૂ. ૨૧૦૦ કરોડનો બિઝનેસ
જનરેટ થયો છે તથા ૪૦ હજાર જેટલા
રિટેલર્સ મુલાકાતે આવ્યા હતા. આ
આયોજન ૨૩થી ૨૬ જુલાઈમાં મુંબઈ
ખાતે કરાયું હતું.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

Mr. Rohit Munjal, Vice President and Chairman of the Fair Committee, CMAI, declared, "The record-breaking footfalls and remarkable business outcome at the 79th National Garment Fair are a testament to the apparel segments positive outlook. This year, 79th NGF has exceeded expectations by providing invaluable opportunities for business, networking, growth and collaboration. Prominent retailers and distributors from across the country and overseas were seen at the fair, expressing interest in regional brands as well."

Mr. Anand Choksi, Joint Chairman of the Fair Committee, CMAI added, "The Indian apparels industry is on a trajectory of stable growth, and CMAI is excited to be a key driver of this journey. The National Garment Fair has highlighted the industry's readiness to seize emerging opportunities .

गार्मेंट फेअरमध्ये २१०० कोटींची उलाढाल

। मुंबई : क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) द्वारे आयोजित करण्यात आलेले ७९वे नॅशनल गार्मेंट फेअर (एनजीएफ) अभूतपूर्व यशाने संपन्न झाले. या प्रदर्शनात देशभरातून ३९००० पेक्षा जास्त खरेदीदार मुख्यत्वे किरकोळ विक्रेते, वितरक आणि घाऊक विक्रेते सहभागी झाले आणि त्यांनी अंदाजे २१०० कोटी रुपयांची उलाढाल केली. याव्यतिरिक्त, या प्रदर्शनादरम्यान झालेल्या व्यापार चौकशांमधून ८०० कोटी ते १००० कोटी रुपयांचे व्यवहार होतील, असा अंदाज आहे. या प्रदर्शनात १३०० हून अधिक पोशाखांचे ब्रँड्स सहभागी झाले होते.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

79वें नेशनल गारमेंट फेयर (NGF) में 2100 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान



देश भर से 39000 से अधिक खरीदारों की उपस्थिति रही

मुंबई। क्लॉथिंग मैनुफैक्चरिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) द्वारा आयोजित 79वें नेशनल गारमेंट फेयर (NGF) 2024 का अभूतपूर्व सफलता के साथ समापन हुआ, जिसने भारत के सबसे बड़े परिधान व्यापार मेले के रूप में इसकी स्थिति को और भी पुख्ता किया है। 23 से 26 जुलाई, 2024 तक आयोजित इस इवेंट में देश भर से 39000 से अधिक खरीदारों की उपस्थिति रही, मुख्य रूप से खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और थोक

विक्रेताओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। इस दौरान, चार दिनों में लगभग 2100 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इसके अतिरिक्त अगले 4-8 सप्ताह में 800 करोड़ रुपये से 1000 करोड़ रुपये तक की बिजनेस इन्क्वॉयरी आने की उम्मीद है। इस बिजनेस मेले में 1300 से अधिक अपैरेल ब्रांड्स शामिल हुए, जिन्होंने 1 मिलियन वर्ग फीट के विशाल प्रदर्शनी स्थल पर अपने नवीनतम कलेक्शन को प्रदर्शित किया। मेले का आयोजन दो स्थानों पर किया गया था: बॉम्बे एर्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में, जहां पुरुषों और महिलाओं के वस्त्रों के साथ ही अन्य एक्सेसरीज प्रदर्शित किए गए थे, जबकि जियो कन्वेंशन सेंटर, बीकेसी में बच्चों के परिधानों को रखा गया था।

डोमेस्टिक गारमेंट इंडस्ट्री के परफॉरमेंस के बारे में CMAI के अध्यक्ष राजेश मसंद ने कहा, 'इस मेले ने इस सेक्टर की ग्रोथ और परिवर्तनकारी क्षमताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। इस ऐतिहासिक संस्करण ने न केवल हमारे उद्योग के लचीलेपन को उजागर किया है, बल्कि हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षाओं को भी प्रेरित किया है। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, NGF अपने आप को परिधान उद्योग के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, साथ ही परिधान ब्रांडों और खरीदारों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को भी सुगम व सुविधाजनक बनाता है।'

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmal.in • Website : www.cmal.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

नेशनल गारमेंट फेअरमध्ये कोट्यवधींची उलाढाल

मुंबई : क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमआई) द्वारे आयोजित ७९व्या नेशनल गारमेंट फेअरला (एनजीएफ) चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. २३ ते २६ जुलै २०२४ या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या या प्रदर्शनात देशभरातून ३९,००० पेक्षा जास्त ग्राहक, वितरक आणि घाऊक विक्रेते सहभागी झाले होते. प्रदर्शन काळात सुमारे २,१०० कोटी रुपयांची उलाढाल केली.

नेशनल गारमेंट फेयर में लगभग 2100 करोड़ का हुआ कारोबार

भास्कर संवाददाता | मुंबई. क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमआई) की तरफ से आयोजित 79वें नेशनल गारमेंट फेयर में देश भर से कुल 39 हजार व्यापारियों ने हिस्सा लिया। चार दिवसीय इस प्रदर्शनी में लगभग 2100 करोड़ रुपये के कारोबार की जानकारी सीएमआई ने दी है। 23 जुलाई से 26 जुलाई तक दो स्थानों पर लगने वाले इस प्रदर्शनी में 1300 से अधिक अप्रैल ब्रांड्स शामिल हुए तथा 1 मिलियन वर्ग फीट के प्रदर्शनी स्थल पर अपने नवीनतम कलेक्शन को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में हुए कुल कारोबार के संबंध में सीएमआई के अध्यक्ष राजेश मसंद ने कहा की नेशनल गारमेंट फेयर अपने आप को परिधान उद्योग के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, साथ ही परिधान ब्रांडों और खरीदारों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को भी सुगम व सुविधाजनक बनाता है। इस प्रदर्शनी में कारोबार अनुमानतः लगभग 2100 करोड़ का रहा, अगले चार से आठ सप्ताह में 800 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए तक की इस फेयर से बिजनेस इन्क्वायरी आने की हमें उम्मीद है।

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

Sportswear gets easy stretch, cotton ruffles

TEAM TOI

In a move that's expected to make winter wear, athleisure, sportswear and bottom wear cheaper, duties have been cut on real down-filling material from ducks and geese, widely used in winter wear, along with those on methylene diphenyl diisocyanate (MDI) used for making spandex yarn.

Govt has cut the basic customs duty on MDI from 7.5% to 5%, which is likely to reduce the cost of stretchable cloth used to manufacture apparel. Similarly, duty on down-filling material has been reduced from 30% to 10%.

"The duty relaxation in trims, accessories and raw materials will help bring down costs and make the apparel industry more competi-

tive," said Rahul Mehta, chief mentor of the Clothing Manufacturers' Association of India. Other measures in the Budget, such as incentives and subsidies for employees, and benefits for labour-intensive industries will also aid the sector, he added.

However, there will be no reduction in price-tags of cotton apparel due to unchanged duties and taxes amidst volatile prices of domestic cotton, said Vijay Mevawala, president, Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry. M P Muthurathinam, president of Tiruppur Exporters and Manufacturers Association, was disappointed over inadequate relief to MSMEs. "In Tiruppur, 50% of MSME apparel makers have exited the industry due to huge losses," he said.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

09:45 You Today, 08:41 MSME सेक्टर ने कहा

कर्ज के बोझ से दबे

स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम और मुद्रा लोन की सीमा बढ़ने

Sudha.Shrimali@timesgroup.com

■ मुंबई: मोदी सरकार के वजट में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम आंत्रप्रनर्स (MSME) सेक्टर को लेकर हुई अनाउंसमेंट से मुंबई के MSME खुश दिखाई दिए। उनका मानना है कि इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और कर्ज के बोझ से लड़खड़ा रहे MSME सेक्टर को राहत मिलेगी। एक तरफ स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम की घोषणा कर कर्ज के बोझ से लड़खड़ा रहे MSME सेक्टर को पटरी पर लाने का प्रयास किया गया है। दूसरी तरफ मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर छोटे कारोबारियों का मनोबल बढ़ाया गया है।

‘कपड़ा और परिधान उद्योग को लाभ’

ICC National Textiles Committee के चैयरमैन संजय के जैन ने कहा कि स्पैन्डेक्स यान के मुख्य कच्चे माल पर आयात शुल्क में कमी के अलावा वस्त्र उद्योग के लिए खास नहीं किया गया। उम्मीद है कि चल रही योजनाओं के वित्तपोषण में कमी नहीं आएगी। हालांकि अप्रत्यक्ष लाभ है, विशेष रूप से रोजगार के लिए प्रोत्साहन और एमएसएमई तक ऋण लागत और पहुंच को आसान बनाने के उपाय।

CMAI के चीफ मैटर राहुल मेहता ने कहा कि MSME को बैंक ऋण का समर्थन करने और विदेशी निवेश आसान बनाने के लिए घोषित अतिरिक्त उपायों से भी कपड़ा और परिधान उद्योग को लाभ होगा। परिधान विनिर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल, टिम्स और उपकरणों के आयात में छूट से निर्यात बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी।



43b(h) में संशोधन का इंतजार था। परंतु ऐसा कोई भी संशोधन बजट में दिखाई नहीं दिया। MSME के लिए 6000 करोड़ रुपये देना स्वागत योग्य है, क्योंकि इस सेक्टर का देश की अर्थव्यवस्था में 50% योगदान है। - अजय सिंघानिया, मंत्री, भारत सर्वेक्स चेंबर



जमान की गा उपक लिए ए योजना सराहने विले -

टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलने



45 लाख रुपये तक के और घर आते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की श्रेणी में

बजट में कैपिटल गेन टैक्स

■ विजय पांडेय/पंकज पांडेय मुंबई: रियल इस्टेट सेक्टर के निवेशकों को बजट में तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल गेन टैक्स को भले ही घटाकर 12.5% कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही इंडेक्सेशन का लाभ हटा लिया गया है। जानकारों के मुताबिक, इससे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक, पहले की तरह अब 2-3 साल के लिए रियल इस्टेट में आकर पैसा कमाने का मौका

मुंबई से अफोर्डेबल हाउसिंग भले ही सरकार ने बनाने का वादा किया मुंबई को इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा चेंबर ऑफ इंडियन हाउसिंग के नियम तक और 600 वर्ग अब 45 लाख का

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA
 901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
 Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune
 Follow us :     

79th National Garment Fair by CMAI in Mumbai Inaugurated by Seerna Rajamouli, of R S Brothers, South India's leading Retail Group



- India's largest Apparel Trade Show with 1300 brands to attract more than 30,000 retailers from across the country in Mumbai
- The domestic apparel market is projected to reach USD 105.50 billion in 2024 with an anticipated annual growth rate of 3.81% from 2024 to 2028

Mumbai, The 79th National Garment Fair (NGF) 2024 organised by the Clothing Manufacturers Association of India (CMAI), was inaugurated by Seerna Rajamouli of R S Brothers, South India's leading Retail Group on 23rd July in the august presence of industry leaders, apparel manufacturers, retailers, distributors and other industry members at the Bombay Exhibition Centre, Goregaon and Jio World Convention Centre, BKC. 79th NGF is showcasing more than 1300 apparel brands within an expansive 1 million square feet of exhibition space spread across two venues – Men's Wear, Women's Wear and Accessories at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, and Kids Wear at the Jio Convention Centre, BKC over the next four days from 23rd to 26th July, 2024 featuring a diverse range for collections for the largest assembly of retailers

and distributors from across India. CMAI dignitaries present at the inauguration included, Rajesh Masand - President, Rohit Munjal - Vice President & Chairman-NGF, Santosh Katariya - Hon. General Secretary, Ankur Gadia - Hon. Treasurer, Anand Choksi, Jt. Chairman-NGF and Rahul Mehta, Chief Mentor among other office bearers and managing committee members. Speaking about the domestic apparel market, Rajesh Masand, President, Clothing Manufacturers Association of India (CMAI), said, "The apparel industry is optimistic about the upcoming festive season. Along with showcasing the vibrant and diverse offerings of apparel brands, the National Garment Fair highlights the industry's resilience after a tepid demand since last two years. This NGF provides an unparalleled

platform for brands and manufacturers to showcase their latest collections and innovations. As the country gears up for a season of celebration, NGF serves as a crucial hub for retailers and buyers to source the finest apparel, ensuring that end consumers have access to a wide range of stylish options."

Speaking at the inauguration, Seerna Rajamouli, R S Brothers said, "The fashion industry is at a fascinating intersection of form and function. The consumers need clothing, true, but there is also a deeply psychological aspect to the clothes they wear and the ways the apparel industry influences consumers to purchase their brand over. We are amazed with the positive energy at the fair and impressed to see vast variety of collections that is on display at both the fair venues. Indeed, its the perfect sourcing platform for our buying teams who are present here."

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West), Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     



The platforms CMAI provides are essential for retailers to explore the latest trends and build their vendor base and staying updated with innovations in the industry

CMAI has been instrumental in simplifying the Packaged Commodities Act by persuading the Government to remove impractical rules such as mandatory inclusion of expiry dates

Advocating on ESG

CMAI is committed to fully understanding the environmental impact of its current garment production. Through its path-breaking initiative SU.RE (Sustainable Resolution), which saw 16 of India's top brands and retailers join hands to propagate a more sustainable future for the Industry, CMAI has made clear its pivotal role and leadership position in making the Apparel Industry of India more future-ready. It is developing a sustainable sourcing policy that prioritises certified raw materials with positive environmental effects. By making informed decisions about sourcing sustainable and renewable materials, ensuring traceability, and communicating its sustainability initiatives effectively through various channels, CMAI will be enabling the brand to transition a significant portion of its supply chain to a sustainable model by 2025. This initiative addresses global issues like climate change, contributes to the UN Sustainable Development Goals, and supports a safer world for future generations, recognising a shared responsibility.

Indian Apparel Industry's largest voluntary commitment to sustainability, SU.RE - Sustainable Resolution, is another huge initiative by CMAI, in collaboration with Reliance Brands Limited (RBL), United Nations in India, and The Ministry of Textiles - GoI, aiming to catalyse the industry's transition towards sustainability.

In partnership with the British Council, SU.RE hosted a day that brought together pioneers from India and the UK, to address the urgent need for sustainability in the fashion industry. A workshop on 'Navigating the Path to Ethical Excellence' workshop was organised during the Global Fashion Summit, in partnership with the British Council to reinforce sustainability within India's apparel sector, fostering global alliances and knowledge exchange.

This strategic collaboration not only empowers SU.RE signatories to transform into sustainable brands but also serves as a conduit for collaboration with like-minded partners in the UK, Copenhagen and beyond.

Anticipating Trends and Resolving Disputes

The Association's recent partnerships with leading trend forecasters in both Western and Ethnicwear categories demonstrate its commitment to helping retailers anticipate and adapt to emerging fashion trends. This proactive approach helps retailers avoid the burden of unsold and outdated inventory, ensuring they remain competitive and relevant.

In addition to these initiatives, its Conciliation and Arbitration Cell plays a crucial role in resolving commercial disputes between manufacturers and retailers. Acting as an objective and unbiased mediator, this cell helps maintain healthy business relationships and ensures smooth operations within the industry.

A Keystone of the Industry's Future

The Association's multifaceted role as an advocate, facilitator, and catalyst for change has significantly shaped the Indian apparel industry. By continuously engaging with Government bodies on policy matters, CMAI ensures a balanced and progressive environment for fashion retailers. Its efforts not only protect but also promote the growth and sustainability of the domestic apparel sector.

Clothing Manufacturers Association of India is not just a key organisation in the Indian apparel industry; it is a keystone of the industry's future. Its contribution to business amplification has made it a pillar of support and change, ensuring the continued prosperity and innovation of the Indian apparel industry. ⁸²

https://m.economictimes.com/industry/services/retail/budget-initiatives-will-increase-disposable-income-boost-spending-retail-industry/amp_articleshow/111968025.cms

<https://textileinsights.in/indian-union-budget-2024-key-initiatives-to-boost-textile-leather-and-msme-sectors/>

<https://money.rediff.com/amp/news/market/budget-boost-retail-industry-sees-spending-surge/13149320240723>

https://m.economictimes.com/industry/services/retail/budget-initiatives-will-increase-disposable-income-boost-spending-retail-industry/amp_articleshow/111968025.cms

https://m.economictimes.com/industry/services/retail/budget-initiatives-will-increase-disposable-income-boost-spending-retail-industry/amp_articleshow/111968025.cms

https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/budget-2024-apparel-industry-set-for-cost-reduction-with-duty-cuts-on-key-inputs/amp_articleshow/111973103.cms

<https://bwretailworld.com/economy/retail-industry-applauds-balanced-budget-with-emphasis-on-growth-employment>

India Budget: Industry Calls For Tax Rebates, Innovation Incentives

<https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/india-budget-industry-calls-for-tax-rebates-innovation-incentives-296799-newsdetails.htm>

Economic Survey 2024: Mini survey in January listed THESE four challenges for the Indian economy

<https://www.livemint.com/budget/economic-survey/economic-survey-2024-union-budget-january-four-challenges-indian-economy-growth-reform-ai-skilled-labour-energy-policy-11721543827818.html>

India likely to have highest per-capita income growth, says report

https://www.business-standard.com/economy/news/india-to-record-highest-per-capita-income-growth-in-next-decade-report-124072100430_1.html

Budget 2024: Job creation, other booster shots likely for fitter economy

https://m.economictimes.com/news/economy/policy/budget-2024-job-creation-other-booster-shots-likely-for-fitter-economy/amp_articleshow/111909334.cms

India FTA talks set to be revived with first major UK ministerial visit

https://www.business-standard.com/economy/news/india-fta-talks-set-to-be-revived-with-first-major-uk-ministerial-visit-124072100267_1.html

Budget 2024 Expectations: Consumer durable industry calls for 5-12% GST cut

<https://www.financialexpress.com/budget/budget-2024-expectations-consumer-durable-industry-calls-for-5-12-gst-cut-3560049/lite/>

Import Curbs Hurt Garment Export Growth: GTRI

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     



https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/import-curbs-hurting-indian-garment-export-growth/amp_articleshow/111910704.cms

DGFT, customs process overhaul, revamp textile PLI scheme, QCO suspension to aid exports: GTRI

<https://m.economictimes.com/news/economy/foreign-trade/dgft-customs-process-overhaul-revamp-textile-pli-scheme-qco-suspension-to-aid-exports-gtri/articleshow/111903420.cms>

Tamil Nadu's Tirupur weaves its way into the Paris Olympics legacy

https://www.business-standard.com/india-news/tamil-nadu-s-tiruppur-spins-glory-threads-its-legacy-into-paris-olympics-124072100326_1.html

India's garment export woes are self-inflicted: report

<https://www.thehindu.com/business/Economy/indias-garment-export-woes-are-self-inflicted-report/article68430023.ece>

Tariff barriers, but for how long?

<https://www.financialexpress.com/policy/economy-tariff-barriers-but-for-how-long-3560017/lite/>

Lack of raw material access keeps garment exports down

<https://www.financialexpress.com/business/industry/lack-of-raw-material-access-keeps-garment-exports-down/3559970/lite/>

A ray of hope for Indian biz in Bangladesh after top court order

https://www.business-standard.com/companies/news/signs-of-relief-for-india-inc-as-bangladesh-s-sc-scraps-most-job-quotas-124072100362_1.html

Plan in works to get trade finance activities under one umbrella

<https://m.economictimes.com/news/economy/policy/plan-in-works-to-get-trade-finance-activities-under-one-umbrella/articleshow/111909223.cms>

'Huge potential for Indian garment players to export products to Japan'

<https://www.millenniumpost.in/amp/business/huge-potential-for-indian-garment-players-to-export-products-to-japan-572627>

Five-year action plan in the works to boost exports to \$2 trillion by 2030

<https://www.thehindubusinessline.com/economy/five-year-action-plan-in-the-works-to-boost-exports-to-2-trillion-by-2030/article68428771.ece>

Need for tweak: India for distinct tariff plans with all Asean partners

https://www.business-standard.com/amp/economy/news/india-to-bat-for-distinct-tariff-plans-with-asean-nations-in-meeting-124072100348_1.html

<https://indiantextilejournal.com/textiles-see-28-increased-allocation-in-budget-2024/>

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

<https://indiantextilejournal.com/79th-national-garment-fair-generates-business-close-to-rs-21-bn-in-four-days/>

<https://textileinsights.in/national-garment-fair-2024-record-success-and-business-growth/>

<https://www.indian-apparel.com/79th-national-garment-fair-39000-retailers-inr-2100-crores-in-business-in-just-four-days/>

<https://www.tripurastarnews.com/79th-national-garment-fair-draws-a-record-39000-retailers-in-four-days-estimated-business-generated-close-to-inr-2100-crores/>

<https://textileinsights.in/national-garment-fair-2024-record-success-and-business-growth/>

<https://textilesouthasia.com/2024/07/30/79th-national-garment-fair-draws/>

<https://www.apparelviews.com/record-breaking-success-at-79th-national-garment-fair-over-rs-2100-cr-business-generated>

<https://www.passionateinmarketing.com/79th-national-garment-fair-draws-a-record-39000-retailers-in-four-days-estimated-business-generated-close-to-inr-2100-crores/>

<https://fashionvaluechain.com/79th-ngf-draws-a-record-39000-retailers-in-four-days/>

<https://fashionvaluechain.com/79th-ngf-draws-a-record-39000-retailers-in-four-days/>

<https://www.fibre2fashion.com/news/apparel-announcement-news/cmair-s-79th-national-garment-fair-2024-in-mumbai-hosts-39k-buyers-297004-newsdetails.htm>

<http://www.fibre2fashion.com/news/cotton-news/2023-24-season-may-see-slightly-lower-global-cotton-production-report-296820-newsdetails.htm?amp=true>



VID-20240726-WA0052.mp4

Date	Subject	Particulars
Circulars (Email, Website & WhatsApp to All Members)		
9th July 2024	Cir No. 13 / M-3 / 2024	Cir No. 13 / M-3 / 2024 – ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION FOR THE MONTH OF JUNE 2024
Social Media Posts (Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter, WhatsApp & YouTube)		
1st July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmair.in • Website : www.cmair.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

2nd July 2024	C.N.A	Collection Report for the Period 01.06.2024 to 30.06.2024
2nd July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
2nd July 2024	79th National Garment Fair	Visitor Registration Now Open
2rd July 2024	79th National Garment Fair	Visitor Registration Now Open
3rd July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
4th July 2024	79th National Garment Fair	Visitor Registration Now Open
4th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
5th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
5th July 2024	2ND EDITION BRANDS OF INDIA SHOW	TO BOOK YOUR STALL 📌 📌 📌 CLICK HERE : https://bit.ly/3UWtYaL
6th July 2024	79th National Garment Fair	Visitor Registration Now Open
6th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
8th July 2024	79th National Garment Fair	15 Days to go
8th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
9th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
10th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
11th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
11th July 2024	79th National Garment Fair	12 DAYS TO GO!!!!
12th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
12th July 2024	C.N.A	State-wise Addition to Caution List for the period 01.06.2024 to 07.07.2024
13th July 2024	79th National Garment Fair	10 Days to Go!!!
14th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

15th July 2024	2ND EDITION BRANDS OF INDIA SHOW	☐ Click here for Visitor Registration 📞 📧 📧 : https://brandsofindia.cmai.in/
15th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
16th July 2024	79th National Garment Fair	7 Days to Go!!!
16th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
16th July 2024	2ND EDITION BRANDS OF INDIA SHOW	To Book your Stall 🤝 🤝 🤝 Click here: https://bit.ly/3UWtYaL
17th July 2024	79th National Garment Fair	6 Days to Go!!!
17th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
18th July 2024	79th National Garment Fair	5 Days to Go!!!
18th July 2024	79th National Garment Fair	1300 Brands in India's Largest Apparel Trade Show, will be held from 23rd – 26th July 2024
18th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
19th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
19th July 2024	79th National Garment Fair	4 Days to Go!!!
19th July 2024	79th National Garment Fair	1300 Brands in India's Largest Apparel Trade Show, will be held from 23rd – 26th July 2024
20th July 2024	79th National Garment Fair	3 Days to Go!!!
20th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
20th July 2024	79th National Garment Fair	1300 Brands in India's Largest Apparel Trade Show, will be held from 23rd – 26th July 2024
21st July 2024	79th National Garment Fair	2 Days to Go!!!
21st July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
21st July 2024	CMAI	CMAI Managing Committee, met Shri. Chandrakant Dada Patil, Hon'ble Minister for Textiles, Govt. of Maharashtra

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     

21th July 2024	79th National Garment Fair	1300 Brands in India's Largest Apparel Trade Show, will be held from 23rd – 26th July 2024
21th July 2024	79th National Garment Fair	FREE SHUTTLE SERVICES FOR THE VISITORS OF THE 79TH NATIONAL GARMENT FAIR
22nd July 2024	79th National Garment Fair	24 Hours to Go!!!
22nd July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
22nd July 2024	79th National Garment Fair	Last day to Save Rs. 100!!!
22nd July 2024	79th National Garment Fair	1300 Brands in India's Largest Apparel Trade Show, will be held from 23rd – 26th July 2024
22nd July 2024	79th National Garment Fair	We are getting ready, are you?
23rd July 2024	79th National Garment Fair	Opens Today!!
23rd July 2024	79th National Garment Fair	Watch the Inauguration of the 79th National Garment Fair Live
23rd July 2024	C.N.A	All India Caution List as on 15th July 2024.
23rd July 2024	C.N.A	Collection Report for the Period 01.07.2024 to 22.07.2024.
23rd July 2024	79th National Garment Fair	Now Open!!
23rd July 2024	79th National Garment Fair	INAUGURATION OF THE 79TH NATIONAL GARMENT FAIR AT THE MEN'S AND WOMEN'S SECTION - NESCO
23rd July 2024	79th National Garment Fair	INAUGURATION OF THE 79TH NATIONAL GARMENT FAIR AT THE KIDS SECTION - JIO
23rd July 2024	79th National Garment Fair	End of Successful Day : 01!!!
24th July 2024	79th National Garment Fair	Day 2 - Begins : 79th National Garment Fair*
24th July 2024	79th National Garment Fair	Exhibitors Promotional post
24th July 2024	79th National Garment Fair	End of Successful Day : 02!!!
25th July 2024	79th National Garment Fair	Day 3 - Begins : 79th National Garment Fair

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     



25th July 2024	79th National Garment Fair	End of Successful Day : 03!!!
26th July 2024	79th National Garment Fair	Last Day Today : 79th National Garment Fair*
26th July 2024	79th National Garment Fair	Thank you to all the Exhibitors & Visitors for making 79th National Garment Fair a Grand Success
31th July 2024	79th National Garment Fair	CMAI APPAREL VOL. 43 - ISSUE 3 (JULY - SEPTEMBER 2024)

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, 'A' Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (West),
Mumbai 400 013. • Tel : +22-2439 0909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in

Bengaluru • New Delhi • Pune

Follow us :     